



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1941 (श0)
(सं0 पटना 1326) पटना, बुधवार, 11 दिसम्बर 2019

सं० 13/उ०नि०/130/2017-3996 /उ०
कृषि विभाग
उद्यान निदेशालय

संकल्प

26 नवम्बर 2019

बिहार कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि-7 (उद्यान) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-942 दिनांक 15.09.2014 द्वारा स्वीकृत निम्नवर्गीय लिपिक -सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर (74) एवं भण्डार पाल (1) के पदनाम को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में सम्परिवर्तित पदनाम निम्नवर्गीय लिपिक करने हेतु कृषि विभाग, बिहार के संलेख ज्ञापांक-873 दिनांक 22.07.2019 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 06.08.2019 में मद संख्या-01 के रूप में सम्मिलित किया गया।

2. पूर्व से स्वीकृत पद निम्नवर्गीय लिपिक -सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं भण्डार पाल के सम्परिवर्तित पदनाम निम्नवर्गीय लिपिक के स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 06.08.2019 में (मद संख्या-01) की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. आदेश निर्गत की तिथि से पूर्व से स्वीकृत निम्नवर्गीय लिपिक -सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं भण्डार पाल के पदनाम को मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति के आलोक में सम्परिवर्तित पदनाम निम्नवर्गीय लिपिक (कुल पद-75) संसूचित की जाती है।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1326-571+10 -डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>